

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-29082024-256737  
SG-DL-E-29082024-256737असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]	दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 168
No. 223]	DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946	[N. C. T. D. No. 168

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

संख्या-29/2023-राज्य कर

सं. फा. 3 (10)वित्त(व्यय-I) 2024-25/डीएस-I/716.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या अधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया अधिसूचित करती है, जो एसएलपी (सी) संख्यांक 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के अधीन उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल करने का आशय रखता है।

2. आदेश के विरुद्ध अपील इस अधिसूचना के उपाबंध- I में संलग्न प्ररूप में दो प्रतियों में की जाएगी और और उक्त अधिनियम की यथा स्थिति, धारा 107 की उप-धारा (1) या धारा 107 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समय के भीतर अपीलीय

प्राधिकारी के समक्ष मैनुअल रूप से प्रस्तुत की जाएगी, और ऐसे समय की गणना इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख या उक्त आदेश की तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, से की जाएगी:

परंतु कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले अपीलीय प्राधिकारी के पास उक्त अधिनियम की धारा 107 के प्रावधानों के अनुसार आदेश के विरुद्ध फाइल कोई भी अपील इस अधिसूचना के अनुसार फाइल की गई मानी जाएगी।

3. अपीलकर्ता को उक्त आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने की पूर्व शर्त के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट कोई भी रकम जमा करना अपेक्षित नहीं होगा।

4. इस अधिसूचना के तहत फाइल की गई अपील के साथ आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति सहित सुसंगत दस्तावेज संलग्न होंगे और ऐसी अपील और सुसंगत दस्तावेजों पर दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम 2017, के नियम 26 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. अपील की प्राप्ति पर, जो इस अधिसूचना में उपबंधित सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है, अपील संख्याक को उपदर्शित करते हुए एक पावती, अपीलीय प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एपीएल -02 में मैनुअल रूप से जारी की जाएगी और अपील केवल तभी फाइल की जाएगी जब उपरोक्त पावती जारी की हो।

6. अपीलीय प्राधिकारी, अपने आदेश के साथ, इस अधिसूचना के साथ उपाबंध-2 के रूप में संलग्न प्ररूप में आदेश का सारांश जारी करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)

अपाबंध - 1

#### अपीलीय प्राधिकारी से अपील

(एसएलपी (सी) सं0 32709-32710/2018 भारत संघ बनाम फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में परिपत्र संख्या 182/14/2022-जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के विरुद्ध फाइल की गई)

1. जीएसटीआईएन-

2. अपीलकर्ता का विधिक नाम -

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो-

4. पता-

5. आदेश संख्या -

आदेश तारीख-

6. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, उसे पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम-

7. जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी संसूचना की तिथि -

8. प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम -

9. विवादाधीन मामले के ब्यौरे-

(i) विवादाधीन मामले का संक्षिप्त विवरण -

(ii) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022- जीएसटी, तारीख 10 नवंबर 2022(अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की राशि।

(iii) उपरोक्त उप-मद (ii) में निर्दिष्ट दावे के संबंध में धारा 73/74 के तहत पारित किसी भी आदेश के ब्यौरे:

(क) आदेश संख्या -

आदेश तारीख-

(ख) उक्त आदेश के अनुसार अनुज्ञात रकम (अधिनियम-वार) - रु.

(ग) उक्त आदेश के अनुसार उध्दहरण हुआ ब्याज और जुर्माना (अधिनियम-वार) – रु

(घ) क्या उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई है – हां/नहीं

(ङ.) यदि अपील फाइल की गई है तो अपील संख्या— अपील तारीख—

(च) उक्त अपील की प्रास्थिति—निस्तारण/लंबित

(छ) यदि अपील का निपटारा हो जाता है तो उक्त अपील के अनुसार स्वीकृत क्रेडिट रकम (अधिनियम-वार) – रु.

(iv) परिपत्र संख्यांक 182/14/2022—जीएसटी, तारीख 10 नवंबर 2022 (अधिनियम-वार) जारी होने से पूर्व दावा की गई ट्रांजिशनल क्रेडिट की रकम।

(v) उपरोक्त उपमद (iii) में निर्दिष्ट दावे के अनुसरण में स्वीकृत क्रेडिट की रकम (अधिनियम-वार) – रु.

(vi) विवादाधीन रकम (अधिनियम-वार)— रु.

10. क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनावार्ई चाहता है – हाँ/नहीं

11. तथ्यों का विवरण:

12. अपील का आधार:

13. प्रार्थना:

#### सत्यापन

मैं, <\_\_\_\_\_>, सत्यनिष्ठा से पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि यहां ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

#### टिप्पण:

1. यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाता है, तो अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है।
2. अक्षर "एन.ए." किसी भी आइटम के विरुद्ध अभिलिखित किया जा सकेगा जो इस अपील के लिए अपेक्षित नहीं है।

#### अपाबंध – 2

परिपत्र संख्या 182/14/2022—जीएसटी, दिनांक 10 नवंबर, 2022 के अनुसार पारित आदेश के संदर्भ में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने के पश्चात् उपलब्ध संक्रमणकालीन क्रेडिट का सारांश

क. जीएसटीआईएन—

ख. अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम—

अपीलार्थी/व्यक्ति का पता —

ग. आदेश के विरुद्ध अपील की गई— संदर्भ (यदि कोई हो) तारीख—

घ. अपील संख्या तारीख—

ङ.. व्यक्तिगत सुनवाई—

च . संक्षेप में आदेश—

छ. आदेश की प्रास्थिति— पुष्टि/उपांतरित/निरस्त

ज . अपील के पश्चात् क्रेडिट/मांग की राशि—

विशिष्टियां	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर
क) उचित अधिकारी के आदेश के अनुसरण में अनुज्ञेय पाई जाने वाली संक्रमणकालीन क्रेडिट रकम		
ख) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि		

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपीलीय प्राधिकारी का नाम:

पदनाम:

अधिकारिता:

### FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Delhi, the 28th August, 2024

#### No. 29/2023-State Tax

**No. F. 3 (10)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/716.**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following special procedure to be followed by a registered person or an officer referred to in sub-section (2) of Section 107 of the said Act who intends to file an appeal against the order passed by the proper officer under section 73 or 74 of the said Act in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, dated 10<sup>th</sup> of November, 2022 pursuant to the directions of the Hon'ble Supreme Court in the case of Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018.

2. An appeal against the order shall be made in duplicate in the Form appended to this notification at **ANNEXURE-1** and shall be presented manually before the Appellate Authority within the time specified in sub-section (1) of section 107 or sub-section (2) of section 107 of the said Act, as the case may be, and such time shall be computed from the date of issuance of this notification or the date of the said order, whichever is later:

Provided that any appeal against the order filed in accordance with the provisions of section 107 of the said Act with the Appellate Authority before the issuance of this notification, shall be deemed to have been filed in accordance with this notification.

3. The appellant shall not be required to deposit any amount as referred to in sub-section (6) of section 107 of the said Act as a pre-condition for filing an appeal against the said order.

4. An appeal filed under this notification shall be accompanied by relevant documents including a self-certified copy of the order and such appeal and relevant documents shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 26 of Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017.

5. Upon receipt of the appeal which fulfills all the requirements as provided in this notification, an acknowledgement, indicating the appeal number, shall be issued manually in FORM GST APL-02 by the Appellate Authority or an officer authorised by him in this behalf and the appeal shall be treated as filed only when the aforesaid acknowledgement is issued.

6. The Appellate Authority shall, along with its order, issue a summary of the order in the Form appended to this notification as **ANNEXURE-2**.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)

## ANNEXURE-1

## Appeal to Appellate Authority

*(Filed against an order passed in accordance with Circular No. 182/14/2022-GST, dated 10<sup>th</sup> of November, 2022 pursuant to the directions issued by the Hon'ble Supreme Court in the Union of India v/s Filco Trade Centre Pvt. Ltd., SLP(C) No.32709-32710/2018)*

1. GSTIN–
2. Legal name of the appellant –
3. Trade name, if any –
4. Address –
5. Order No. - Order dated –
6. Designation of the officer passing the order appealed against –
7. Date of communication of the order appealed against –
8. Name of the authorized representative –
9. Details of the case under dispute –
  - (i) Brief issue of the case under dispute –
  - (ii) Amount of transitional credit claimed **before** the issuance of circular no. 182/14/2022-GST, dated 10<sup>th</sup> of November, 2022 (Act-wise)–
  - (iii) Details of any order u/s 73/74 passed in respect of the claim referred to in sub-item (ii) above:
    - (a) Order No. - Order dated-
    - (b) Amount allowed as per said order (Act-wise)- Rs.
    - (c) Interest and penalty levied as per said order (Act-wise)- Rs.
    - (d) Whether any appeal preferred against said order- Yes/No
    - (e) If appeal filed then Appeal No.- Appeal Date-
    - (f) Status of said Appeal- Disposed/Pending
    - (g) If appeal disposed off then amount of credit allowed as per said Appeal (Act-wise)- Rs.
  - (iv) Amount of transitional credit claimed **after** the issuance of circular no. 182/14/2022-GST, dated 10<sup>th</sup> of November, 2022 (Act-wise)–
  - (v) Amount of credit allowed in pursuance of claim referred to in sub-item (iii) above (Act-wise)- Rs.
  - (vi) Amount under dispute (Act-wise)- Rs.
10. Whether the appellant wishes to be heard in person – Yes / No
11. Statement of facts:
12. Grounds of appeal:
13. Prayer:

## Verification

I, <\_\_\_\_\_, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place:

Date:

Signature

Name of the Applicant

## Note:

1. If the space provided for answering any item is found to be insufficient, separate sheets may be used.
2. The letters “N.A.” may be recorded against any item that is not required for this Appeal.

**ANNEXURE-2**

**SUMMARY OF TRANSITIONAL CREDIT AVAILABLE AFTER ISSUE OF ORDER BY THE  
APPELLATE AUTHORITY WITH REFERENCE TO AN ORDER PASSED IN ACCORDANCE  
WITH CIRCULAR NO. 182/14/2022-GST, DATED 10<sup>th</sup> of NOVEMBER, 2022**

- A. GSTIN -
- B. Name of the Appellant/ person- Address of the Appellant/person-
- C. Order appealed against- Ref. (if any) Dated-
- D. Appeal No. Dated-
- E. Personal Hearing-
- F. Order in Brief-
- G. Status of Order- Confirmed/Modified/Rejected
- H. Amount of Credit/ Demand after Appeal-

Particulars	Central Tax	State/UT Tax
a) Amount of transitional credit found to be admissible pursuant to order of the Proper Officer		
b) Amount determined by Appellate Authority		

Place:

Date:

Signature:

Name of the Appellate Authority:

Designation:

Jurisdiction